

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रस्ताव फॉर्म



Take it easy!

क्रमांक: _____

बीमित व्यक्ति के विवरण

प्रस्तावक का नाम (प्रथम नाम) (मध्य नाम) (अंतिम नाम)

पिता का नाम

जन्म तिथि घर क्र./गल्ली क्र. गाँव:

जिला: पिन कोड: राज्य:

टेलीफोन नं. श्रेणी: अजा/अजजा/अन्य लिंग: पुरुष/स्त्री अधिसूचित युनिट

जमीन की स्थिति (अपनी/किराये पर) न्याय पंचायत/होबली/गिरधार क्षेत्र/लाभ क्षेत्र

ग्राम पंचायत/पटवार क्षेत्र प्रखंड तहसील

जमीन का जमीन नं. उगाई गयी फसल

कृषि क्षेत्र (हेक्टर में) मौसम आर्थिक वर्ष

बीमा आवरण

कुल बीमित राशि (रु. में) भरा गया प्रीमियम (रु.)

भुगतान पद्धति (नकद/चेक) प्रीमियम देने की तारीख

प्रस्तावित बीमित व्यक्ति और संपत्ति में आर्थिक हित रखने वाले संरक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विवरण (कृपया उन बैंकों/संस्थाओं के नाम बतायें, जिनसे बीमित कराई जाने वाली संपत्ति की जमानत पर आर्थिक सहायता ली गयी हो)

पॉलिसी से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी

बीमित व्यक्ति का घोषणापत्र

मैं/हम स्वीकार करता हूं/करते हैं कि प्रस्ताव फॉर्म/व्यक्तिगत कथन, घोषणापत्र और संबद्ध दस्तावेजों में किसी भी झूठे या गलत या त्रुटिपूर्ण बयान, भ्रामक जानकारी या गलतबयानी की स्थिति में, या फिर पॉलिसी से कोई लाभ पाने के उद्देश्य से मेरी/हमारी या हमारी ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रस्तावित जोखिम की स्वीकृति पर प्रभाव डालने वाले किसी तथ्य को छुपाये जाने की स्थिति में बीमा कंपनी पॉलिसी को रद्द कर सकती है।

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मेरे/हमारे पास इस संपत्ति और/या इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमित की जाने वाली फसल के कानूनी स्वत्वाधिकार है। मैं/हम अधोहस्ताक्षरी, इस बात की घोषणा करते हैं और आश्वासन देते हैं कि ऊपर दिये गये कथन मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास में सच्चे, स्टीक और संपूर्ण हैं।

मैं/हम बीमा को भविष्य के दावों के लिये प्रभावी बनाना चाहते हैं, मैं स्वीकार करतां हूं कि प्रस्ताव और घोषणापत्र मेरे और

जनरल इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड के बीच किये जाने वाले अनुबंध का आधार होंगे और मैं/हम कंपनी द्वारा लागू की गयी शर्तों के आधीन पॉलिसी को स्वीकार करने की सहमति देता हूं/देते हैं।

मैं/हम स्वीकार करता हूं/करते हैं कि पॉलिसी को प्रीमियम की राशि वास्तविक रूप में प्राप्त होने पर जारी किया जायेगा और जोखिम बीमा कंपनी को पूरा प्रीमियम प्राप्त होने के बाद ही शुरू होगा।

स्थान: _____

नाम: _____

दिनांक: _____

हस्ताक्षर: _____

बुवाई प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री/सुश्री/श्रीमति: _____

पिता श्री. _____ पता: ग्राम _____ हल्का नं. _____

पंचायत _____ ब्लॉक _____ तहसील _____ जिला _____

खसरा नं. _____ बोई फसल का नाम _____ रकबा _____ कास्तकार/बटाईदार _____

को मैं निजी रूप से जानता हूं एवं प्रारूप में दी गई जानकारी मेरे द्वारा जांची/सत्यापित की जाती है।

(हस्ताक्षर एवं मुहर)

पटवारी अथवा ग्राम पंचायत सदस्य

एचडीएफसी आरों जनरल इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड। (सितंबर 14, 2016 से एचडीएफसी जनरल इंश्योरंस लिमिटेड और सितंबर 13, 2016 तक एलऐडटी जनरल इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड के रूप में परिचित।)

सीआइएन: U66030MH2007PLC177117 | पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट ऑफिस: 1ली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165-166 बैंकबे रोडेमेशन, एच. टी. पारेख मार्ग, चांगी, मुंबई - 400 020। कस्टमर सर्विस का पता: डी-301, 3री मंजिल, ईस्टर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (मैग्नेट मॉल), एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई - 400078। टोल-फ़िल: 1800 2 700 700 (सिर्फ भारत से उपलब्ध)। फ़ैक्स: 91 22 66383699। care@hdfcergo.com | www.hdfcergo.com | IIN: IRDAN125P0003V01201617 | IRDAI Reg. No. 146.